



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2012/माघ 14, 1933

No. 41]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 60(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) समूह के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) समूह के पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4 **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.** — इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेण-1 में हैं, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6 **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 **अधिवर्षिता.**— वे अधिकारी जो उप कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) का पद धारण कर रहे हैं, वे उस मास के अंतिम दिन के अपराहन को सेवानिवृत्त होंगे जिसको वे सत्तवान वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं;

परन्तु कोई अधिकारी जिसकी जन्म की तारीख मास का प्रथम दिन है तो वह सत्तवान वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पूर्व मास के अंतिम दिन के अपराहन को सेवा से निवृत्त होगा।

8 **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता)	05* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 3, 15600-39100 रु० + ग्रेड वेतन 6600 रु०	चयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा				
(6)				
लागू नहीं होता				
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
(7)	(8)	(9)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			
(10)	(11)			
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>ऐसे सहायक कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर समूह 'क' और समूह 'ख' में आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा अर्थात् सहायक कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) के रैंक में तीन वर्ष न्यूनतम सेवा के अध्यक्षीन सहायक कमांडेंट (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) और निरीक्षक (शिक्षा एवं तनाव परामर्शदाता) के रैंक में सेवा की हो और विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो।</p> <p>टिप्पण 1.— जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>			

	टिप्पण 2.— 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
(1) महानिदेशक या अपर-महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य
(3) उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य
(4) निदेशक या उपसचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य

[फा सं. I-12011/4/2011-संग]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2012

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Education, and Stress Counsellor) Group 'A' post in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Education and Stress Counsellor) Group 'A' post, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and and pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification and the pay band and grade Pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Health care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of these rules.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Superannuation.— Officers holding the post of Deputy Commandant (Education and Stress Counsellor) shall retire from the service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-seven years:

Provided that an officer whose date of birth is on the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Education and Stress Counsellor).	5* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay band -3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

By promotion:

From amongst Assistant Commandant (Education and Stress Counsellor) who have rendered five years regular service in the grade failing which eight years combined regular service in Group 'A' and Group 'B' i.e. in the rank of Assistant Commandant (Education and Stress Counsellor) and Inspector (Education and Stress Counsellor) subject to minimum three years regular service in the rank of Assistant Commandant (Education and Stress Counsellor) and have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed.

Note.1— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director-General or Additional Director-General Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 	Not applicable

[F. No. I-12011/4/2011-Org]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.